


# कोरोना के खिलाफ..... सरकार के सिपाही

बेशक कोरोना महामारी ने हम सभी को बुरी तरह से प्रभावित किया है लेकिन सरकार के कुछ ऐसे जांबाज सिपाही भी हैं जो हम-आप सभी के जीवन को बचाने के लिए नियमित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर कार्य करने वाले इन सिपाहियों की आवाज़ हम आप तक पहुंचाकर इनका धन्यवाद करना चाहते हैं।

## कौन

पंचायत सरपंच+सचिव



## आमतौर पर काम


खंड विकास अधिकारी के निर्देशों को पंचायत में कार्यान्वित करते हुए आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना।




“ मैं जब फील्ड से घर जाता हूँ, तब मेरा बिस्तर, कपड़े, खाना सभी सामान अलग रखा गया है। मैं अपने परिवार तथा अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रहा हूँ। इस तरह की परिस्थिति से ज्यादातर कर्मचारी जूझ रहे हैं।

ग्राम पंचायत सरपंच, मध्य प्रदेश

## कोरोना की तैयारी



- कोरोना से निपटने के लिए किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। केवल राजस्थान में प्रशिक्षण मिलने की खबर है।
- अधिकतर निर्देश ई-मेल, व्हाट्सएप तथा फ़ोन के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं और ये आदेश ज्यादातर खंड विकास अधिकारी से आ रहे हैं।
- अभी तक मास्क तथा सेनेटाईज़र नहीं मिले हैं।




## कोरोना के समय मुख्य काम

- आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बाहर से आये हुए लोगों के बारे में नियमित जानकारी लेते रहना तथा प्रतिदिन खंड विकास अधिकारी को उसका अपडेट देना।
- बाहर से आये हुए लोगों को उनकी पंचायत में रहने की व्यवस्था करना और सुनिश्चित करना की वह बाहर न जाएँ।
- लॉकडाउन में लोगों को कोरोना महामारी में घर पर रहने तथा लाउडस्पीकर से पंचायत में कोरोना के लक्षणों तथा सावधानियों के बारे में जागरूक करना।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तथा प्रवासियों को राशन उपलब्ध करवाना।

## चुनौतियाँ

- सेनेटाईज़र, ग्लब्स, मास्क नहीं मिले।
- कोरोना महामारी से जुड़े उनके पास कोई पम्फलेट, जागरूकता सामग्री नहीं है, जागरूकता फैलाने में मदद होती।
- गाँवों में लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि कई बार तो बुरा व्यवहार भी किया जा रहा है।



“

हम जब भी ब्लॉक स्तर या किसी भी अधिकारी को फोन करते हैं तो सभी अधिकारी वर्ग जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे अगर किसी को ज्यादा खांसी हो रही हो, तो स्वास्थ्य विभाग के लोग तुरंत गाँव में पहुँचकर उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है।



”

ग्राम पंचायत सरपंच, महाराष्ट्र